

बालिग लोगों के लिए नया स्वास्थ्य कवरेज

1 जनवरी, 2019 को शुरू, वर्जीनिया में रहने वाले और अधिक बालिग लोगों को गुणवत्तापूर्ण, कम-लागत वाले और बिना-लागत वाले स्वास्थ्य बीमा की सुलभता प्राप्त हो सकती है!

1. बालिग लोगों के लिए नया स्वास्थ्य कवरेज क्या है?

मेडिकेड के नियम बदल गए हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपने अतीत में मेडिकेड के लिए आवेदन किया था और वह अस्वीकार कर दिया गया था, तो अब आप उसके पात्र हो सकते हैं। 1 नवंबर, 2018 को शुरू, मेडिकेड के जरिये स्वास्थ्य बीमा हेतु योग्यता प्राप्त करने के लिए और बहुत से लोग आवेदन कर सकते हैं। लाभ 1 जनवरी, 2019 को शुरू होंगे।

खुदरा व्यापार, भवन-निर्माण, पालनाघर यानि चाइल्डकेयर, भूदृश्य निर्माण, खाद्य सेवा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं करने वाली बहुत सी अन्य नौकरियों में काम करने वाले लोग अब इसके पात्र हो सकते हैं।

बालिग लोगों के लिए नया स्वास्थ्य कवरेज ऐसे निम्न आय वाले परिवारों के लिए बढ़िया लाभ प्रदान करता है जिन्हें अन्यथा स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल सुलभ नहीं हो पाती।

2. इसमें क्या कवर होता है?

नया स्वास्थ्य बीमा बालिग लोगों को निम्नलिखित के लिए कवर करता है:

- डॉक्टर, अस्पताल और आपातकालीन सेवायें
- नुस्खे यानि प्रेस्क्रिप्शन द्वारा निर्धारित दवाएं
- प्रयोगशाला और एक्स-रे सम्बन्धी सेवायें
- प्रसूति और नवजात शिशु की देखभाल
- दीर्घकालिक देखभाल और सहायता सेवायें
- घर पर दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवायें
- व्यसन और स्वास्थ्यलाभ उपचार सेवाओं सहित व्यवहार सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवायें
- शारीरिक, व्यवसाय सम्बन्धी, और वाक चिकित्सा सहित पुनर्वास सेवायें
- कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने पर मेडिकेड में कवर सेवाओं के लिए परिवहन व्यवस्था
- परिवार नियोजन सेवायें
- चिकित्सा उपकरण और आपूर्तियां
- रोकथाम व स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें एवं पुरानी बीमारी के प्रबंधन सम्बन्धी सेवायें
- और इससे भी अधिक!

3. इसमें किसको कवर किया गया है?

बालिग लोग नये स्वास्थ्य कवरेज के लिए पात्र हो सकते हैं यदि वे:

- वर्जीनिया में रहते हों
- 19-64 आयु वर्ग के हों
- मेडिकेयर प्राप्त नहीं कर रहे हों या उसके लिए योग्य नहीं हों
- आय सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करते हों, जो परिवार के आकार के हिसाब से भिन्न-भिन्न होती हैं

बालिग लोगों के लिए कवरेज आय सीमा (सकल)*

परिवार का आकार	मासिक	वार्षिक
1	\$1,482	\$17,775
2	\$2,004	\$24,040
3	\$2,526	\$30,305
4	\$3,048	\$36,570
5	\$3,570	\$42,836
6	\$4,092	\$49,101

*13 जनवरी, 2021 से पभावरथी। आय सीमायें सालाना समायोजित की जाती हैं।

4. मैं कैसे आवेदन करूँ?

आप निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक में स्वास्थ्य कवरेज के लिए आवेदन कर सकते हैं:

- कवर वर्जीनिया कॉल सेंटर को 1-855-242-8282 पर फोन करें। दुभाषिये उपलब्ध हैं। हमारे प्रतिनिधि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ देंगे जो आपकी पसंदीदा भाषा बोलता हो।
- सामान्य सहायता: www.commonhelp.virginia.gov पर एक ऑनलाइन आवेदन-पत्र को पूरा भरें
- स्वास्थ्य बीमा मार्केटप्लेस: www.healthcare.gov पर एक ऑनलाइन आवेदन-पत्र को पूरा भरें
- सामाजिक सेवाओं के अपने स्थानीय विभाग को कागज पर आवेदन-पत्र भेजें या सौंपें

आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची के लिए, वेबसाइट www.coverva.org पर जायें और आवेदन करें वाले पृष्ठ पर क्लिक करें।